

Lev

Chapter 22

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 וַיִּדְבֹר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
और-बोला और-यहोवा से-मूसा कहते-हुए
[H0559](#) [H4872](#) [H0413](#) [H3068](#) [H1696](#)

परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा,

2 וַיִּדְבֹר יְהוָה אֶל-הָאֲהֲרֹן וְאֶל-בְּנָיו וְאֶל-יִשְׂרָאֵל וְאֶל-
और-नहीं इस्राएल-के पुत्रों- पवित्र-वस्तुओं-से और-अलग-रखें उसके-पुत्रों और-से- हारून से- कह
[H3808](#) [H3478](#) [H6944](#) [H0413](#) [H0175](#) [H0413](#) [H1696](#)

וְיִתְּלוּ אֶת-שְׁמֵי קְדָשֵׁי יְהוָה אֲשֶׁר בְּהֵם מִקְדָּשֵׁי לִי אֲנִי יְהוָה:
अपवित्र-करें को- नाम मेरी-पवित्रता-का जो वे पवित्र-करते-हैं मेरे-लिए मैं यहोवा
[H3068](#) [H0589](#) [H6942](#) [H1992](#) [H6944](#) [H8034](#) [H0853](#)

“हारून और उसके पुत्रों से कहो: इस्राएल के लोग जो चीजें मुझे देंगे, वे पवित्र हो जाएंगी। वे मेरी हैं। इसलिए तुम याजकों को वे चीजें नहीं लेनी चाहिए। यदि तुम उन उन पवित्र चीजों का उपयोग करते हो तो तुम यह प्रकट करोगे कि तुम मेरे पवित्र नाम का सम्मान नहीं करते। मैं यहोवा हूँ।

3 אָמַר אֲלֵהֶם לְדֹתֵיכֶם כָּל-אִישׁ וְאִשָּׁר-יִקְרַב מִכָּל-זֶרְעֹכֶם אֶל-
कह उनसे कही-तुम्हारी-पीढ़ियों-में कोई- पुरुष जो- निकट-आए सब-से- तुम्हारे-वंश-से के-पास-
[H0413](#) [H2233](#) [H3605](#) [H7126](#) [H0376](#) [H3605](#) [H1755](#) [H0413](#) [H0559](#)

וְהִקְדָּשִׁים הָאֵשֶׁר יִקְדָּשׁוּ בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל לַיהוָה יְהוָה וְעַלְיוֹ
पवित्र-वस्तुओं पवित्र-करते-हैं जो पुत्र- इस्राएल-के यहोवा-के-लिए अशुद्धता और-उसकी-
[H2932](#) [H3068](#) [H3478](#) [H6942](#) [H6944](#)

וְנִכְרְתָהּ וְהָיָה הַנֶּפֶשׁ הַהוּא מִלִּפְנֵי אֲנִי יְהוָה:
और-काटा-जाए प्राण वह मेरे-सामने-से मैं यहोवा
[H3068](#) [H0589](#) [H6440](#) [H1931](#) [H5315](#) [H3772](#)

यदि तुम्हारे सभी वंशजों में से कोई व्यक्ति उन चीजों को छूएगा तो वह अशुद्ध हो जाएगा। वह व्यक्ति मुझसे अलग हो जाएगा। इस्राएल के लोगों ने वे चीजें मुझे दीं। मैं यहोवा हूँ!

4 אִישׁ אִישׁ מִזֶּרַע אֲהֲרֹן וְהוּא צְרוּעַ אוֹ יָב סָבִיב לֹא יֹאכַל עַד
पुरुष पुरुष वंश-से और-वह कोढ़ी या सावी पवित्र-वस्तुएं नहीं खाए जब-तक
[H5704](#) [H0398](#) [H3808](#) [H6944](#) [H2100](#) [H6879](#) [H1931](#) [H0175](#) [H2233](#) [H0376](#) [H0376](#)

אֲשֶׁר יִטְהַר וְהִנְגַּע בְּכָל-טָמֵא-נֶפֶשׁ אוֹ אִישׁ אֲשֶׁר-הִצֵּא מִמֶּנּוּ שְׂכַבְתָּ-
शुद्ध-हो और-छूनेवाला किसी- अशुद्ध- प्राण या पुरुष जिस-से- निकले उससे वीर्य-
[H7902](#) [H3318](#) [H0376](#) [H5315](#) [H2931](#) [H3605](#) [H5060](#) [H2891](#)

זָרַע:
स्खलन
[H2233](#)

“यदि हारून के किसी वंशज को बुरे चर्म रोगों में से कोई रोग हो या उससे कुछ रिस रहा हो तो वह तब तक पवित्र भोजन नहीं कर सकता जब तक वह शुद्ध न हो जाए। यह नियम किसी भी याजक के लिए है जो अशुद्ध हो। वह याजक किसी शव को छू कर या अपने वीर्य पात से अशुद्ध हो सकता है।

5 אִי- אִישׁ אֲשֶׁר יִזְעַע בְּכָל- שָׂרָן אֲשֶׁר לֹא יִטְמָא- לֹא אִוּ בְּאָדָם
 आदमी-को या उसके-लिए अशुद्ध-हो- जो रेंगनेवाले-जीव किसी- छूए जो पुरुष या-
[H0120](#) [H8318](#) [H3605](#) [H5060](#) [H0376](#)

אֲשֶׁר יִטְמָא- לֹא לְכָל- טְמֵאתָוּ:
 अशुद्ध-हो- जो सबके-लिए उसके-लिए उसकी-अशुद्धता
[H2932](#) [H3605](#)

वह तब अशुद्ध हो सकता है जब वह किसी रेंगने वाले जानवर को छूए। वह तब अशुद्ध हो सकता है जब वह किसी अशुद्ध व्यक्ति को छूए। इसका कोई महत्व नहीं कि उस व्यक्ति को किस चीज़ ने अशुद्ध किया है।

6 נֶפֶשׁ אֲשֶׁר תִּזְנַע- בּוֹ וַיְטַמְּאָהּ עַד- הָעֶרֶב וְלֹא יֹאכַל מִן- הַקֹּדְשִׁים
 प्राण जो छूए- उसे और-अशुद्ध-रहे तक- शाम खाय और-नहीं से- पवित्र-वस्तुओं
[H5315](#) [H5060](#) [H5704](#) [H6153](#) [H3808](#) [H0398](#) [H6944](#)

כִּי אִם- רָחֵץ בְּשֵׁרוֹ בַּמַּיִם:
 परन्तु के-अलावा- धोए अपना-शरीर पानी-में
[H7364](#) [H1320](#) [H4325](#)

यदि कोई व्यक्ति उन चीज़ों को छूएगा तो वह सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा। उस व्यक्ति को पवित्र भोजन में सूँ कुछ भी नहीं खाना चाहिए। पानी डालकर नहाये बिना वह पवित्र भोजन नहीं कर सकता है।

7 וּבֹא אֲשֶׁר תִּשְׁמַשׁ וַיְטַמְּאָהּ וְאֶת- הַשֶּׁמֶשׁ וְאֶת- הַיָּם וְאֶת- הַיָּבֵשׁ
 और-आए और-शुद्ध-हो और-बाद-में खाय और-नहीं खाय और-नहीं खाय और-नहीं खाय और-नहीं खाय
[H0935](#) [H8121](#) [H2891](#) [H0398](#) [H6944](#) [H3808](#) [H0398](#) [H3808](#) [H0398](#) [H0398](#)

पवह सूरज के डूबने पर ही शुद्ध होगा। तभी वह पवित्र भोजन कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह भोजन उसका है।

8 נִבְלָה וְנִבְלָה וְנִבְלָה וְנִבְלָה וְנִבְלָה וְנִבְלָה וְנִבְלָה וְנִבְלָה וְנִבְלָה
 मरा-हुआ
[H5038](#) [H2966](#) [H3808](#) [H3098](#) [H0589](#) [H3068](#)

“यदि याजक को कोई ऐसा जानवर मिलता है जो स्वयं मर गया हो या किसी अन्य जानवर द्वारा मार दिया गया हो तो उसे मरे जानवर को नहीं खाना चाहिए। यदि वह व्यक्ति उस जानवर को खाता है तो वह अशुद्ध होगा। मैं यहोवा हूँ!”

9 וְשָׂמְרוּ אֶת- מִשְׁמְרֵי וְלֹא- יִשְׂאוּ עֲלֵיוּ חֵטָא וּמָתוּ בּוֹ כִּי יִחַלְלֵהוּ
 और-पालन-करें और-आज्ञा मेरी-आज्ञा और-नहीं- उठाएं और-नहीं- पाप उन-पर
[H8104](#) [H0853](#) [H4931](#) [H3808](#) [H5375](#) [H2399](#) [H4191](#)

אֲנִי יְהוָה מְקַדְּשֵׁם:
 मैं यहोवा उन्हें-पवित्र-करनेवाला
[H3068](#) [H0589](#) [H6942](#)

“याजक को मेरी सेवा के विशेष समय रखने होंगे। उन्हें उन दिनों सावधान रहना होगा। उन्हें इस बात के लिए सावधान रहना होगा कि वे पवित्र चीज़ों को अपवित्र न बनाएँ। यदि वे सावधान रहेंगे तो मरेंगे नहीं। मैं यहोवा ने उन्हें इस विशेष काम के लिए दूसरों से भिन्न किया है।

10 וְכָל- זָר לֹא- יֹאכַל קֹדֶשׁ תּוֹשָׁב מְגֵרָה וְכָל- לֹא- יֹאכַל קֹדֶשׁ
 और-कोई- पराया नहीं- खाय और-कोई- पराया नहीं- खाय और-कोई- पराया नहीं- खाय और-कोई- पराया नहीं- खाय
[H3605](#) [H3808](#) [H0398](#) [H6944](#) [H3548](#) [H7916](#) [H3808](#) [H0398](#) [H6944](#) [H0398](#)

केवल याजकों के परिवार के व्यक्ति ही पवित्र भोजन खा सकते हैं। याजक के साथ ठहरने वाला अतिथि या मजदूर पवित्र भोजन में से कुछ भी नहीं खाएगा।

11 וְכֹהֵן כִּי- יִקְנָה נֶפֶשׁ קָנִין וְיָלִיד בֵּיתוֹ
 और-याजक यदि- खरीदे प्राण
[H3548](#) [H7069](#) [H5315](#) [H7075](#) [H3701](#) [H1931](#) [H0398](#) [H3211](#)

הֵם יֹאכְלוּ וְיִלְיָדוּ:
 वे खाएँ उसकी-रोटी-में
[H1992](#) [H0398](#) [H3899](#)

किन्तु यदि याजक अपने धन से किसी दास को खरीदता है तो वह पवित्र चीज़ों में से कुछ को खा सकता है और याजक केक घर में उत्पन्न दास भी उस पवित्र भोजन में से कुछ खा सकता है।

12	וּבֵת- और-पुत्री-	כֹּהֵן याजक-की	כִּי यदि	תְּהִיָּה हो	לְאִישׁ पुरुष-की	זָר पराए-की	הִוא वह	בְּתוּמָת उठाई-भेंट-से	הַקְּדוּשִׁים पवित्र-वस्तुओं	לֹא नहीं	תֹּאכַל खाए
	H1323	H3548		H1961	H0376		H1931	H8641	H6944	H3808	H0398

किसी याजक की पुत्री ऐसे व्यक्ति से विवाह कर सकती है जो याजक न हो। यदि वह ऐसा करती है तो पवत्र भेंट में से कुछ नहीं का सकती।

13	וּבֵת- और-पुत्री-	כֹּהֵן याजक-की	כִּי यदि	תְּהִיָּה हो	אֶלְמָנָה विधवा	וְנָרְשָׁה और-त्यागी-हुई	וְזָרַע और-वंश	אִין नहीं	לָהּ उसे	וְשָׂבָה और-लौटे	אֶל- के-पास-
	H1323	H3548		H1961	H0490	H1644	H2233	H0369	H7725	H0413	

	בֵּית घर	אָבִיהָ अपने-पिता-के	כְּנַעֲנִיָּה अपनी-जवानी-में-जैसे	מִלֶּחֶם रोटी-से	אָבִיהָ अपने-पिता-की	תֹּאכַל खाए	וְכָל- और-कोई-	זָר पराया	לֹא- नहीं-	יֹאכַל खाए
	H0001	H0001	H3899	H0001	H0001	H0398	H3605	H3808	H0398	

בּוֹ :
— उसमें

किसी याजक की पुत्री विधवा हो सकती है, या उसे तलाक जासकता है। यदि उके भरन पोषण के लिए उसके बच्चे नहीं हैं और वह अपने पिता के यहाँ लौटती है, जहाँ वह बचपन में रही है तो वह पिता के भोजन मेंस कुछ खा सकती है। किन्तु केवल याजक के परिवार के व्यक्ति ही इस भोजन को खा सकते हैं।

14	וְאִישׁ और-पुरुष	כִּי- यदि-	יֹאכַל खाए	קֶדֶשׁ पवित्र	בְּשֻׁנָּה भूल-से	וַיִּסֶּף और-जोड़े	חֻמְשִׁיתוֹ पाँचवाँ-भाग	עָלָיו उस-पर	וְנָתַן और-दे	לְכֹהֵן याजक-को	אֶת- को-
	H0376		H0398	H6944	H7684	H3254	H2549		H5414	H3548	H0853

הַקְּדוּשׁ:
पवित्र-वस्तु
[H6944](#)

“कोई व्यक्ति भूल से कुछ पवित्र भोजन खा सकता है। उस व्यक्ति को वह पवित्र भोजन याजक को देना चाहिए और उसके अतिरिक्त उस भोजन के मूल्य का पाँचवाँ भाग उसे और देना होगा।

15	וְלֹא और-नहीं	יַחֲלִילוּ अपवित्र-करें	אֶת- को-	קֶדְשֵׁי पवित्र-वस्तुएं	בְּנֵי पुत्रों	יִשְׂרָאֵל इसाएल-के	אֶת को	אֲשֶׁר- जो-	יָרִימוּ उठाते-हैं	לִיהוָה: यहोवा-के-लिए
	H3808		H0853	H6944		H3478	H0853			H3068

“इसाएल के लोग यहोवा को भेंट चढ़ाएँगे। वे भेंटें पवित्र हो जाती हैं। इसलिए याजक को उन पवित्र चीज़ों को अपवित्र नहीं बनाना चाहिए।

16	וְהִשְׂאוּ और-उठाएँ	אוֹתָם उनको	עֲוֹן अपराध	אֲשָׁמָה दोष	בְּאֶחָדָם खाने-में	אֶת- को-	קֶדְשֵׁיהֶם उनकी-पवित्र-वस्तुएं	כִּי क्योंकि	אֲנִי मैं	יְהוָה यहोवा
	H5375	H0853	H5771	H0819	H0398	H0853	H6944		H0589	H3068

מִקְדָּשָׁם :
— उन्हें-पवित्र-करनेवाला
[H6942](#)

यदि याजक उन चीज़ों को अपवित्र समझते हैं तो वे तब अपने पाप को बढ़ाएँगे जब पवित्र भोजन को खाएँगे। मैं, यहोवा उन्हें पवित्र बनाता हूँ!”

17	וַיְדַבֵּר और-बोला	יְהוָה यहोवा	אֶל- से-	מֹשֶׁה मूसा	לְאָמַר: कहते-हुए
	H1696	H3068	H0413	H4872	H0559

यहोवा ने मूसा से कहा,

18 דָּבַר אֵל- אַהֲרֹן וְאֵל- וְאֵל- כָּל- בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאִמְרָתָ אֲלֵהֶם אִישׁ
 कह से- हारून और-से- और-से- सब- पुत्रों और-से- और-कह उनसे
 H0413 H0175 H0413 H3605 H0413 H0413 H3478 H0559 H0413 H0376

אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל וּמִן- הַנָּזֵר בְּיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִקְרִיב קָרְבָּנוֹ לְכֹל-
 पुरुष से-घर-के-इस्राएल-के-और-से- परदेशी नजर इस्राएल-में जो चढ़ाए अपना-चढ़ावा सब-के-लिए-
 H0376 H3478 H1616 H3478 H7126 H3605

נְדָרֵיהֶם וְלְכֹל- נְדָבוֹתָם אֲשֶׁר- יִקְרִיבוּ לַיהוָה לְעֹלָה:
 उनकी-मन्त्रों और-सबके-लिए- और-स्वेच्छाबलियों चढ़ाए जो- उनकी-स्वेच्छाबलियों होमबलि-के-लिए-
 H5088 H3605 H5071 H7126 H3068

“हारून और उसके पुत्रों, और इस्राएल के सभी लोगों से कहो: सम्भव है कि इस्राएल का कोई नागरिक या कोई विदेशी को ई भेंट लाना चाहे। सम्भव है उसने कई विशेष वचन दिया हो, और ह उसके लिए हो। या सम्भव है यह वह विशेष भेंट हो जिसे वह व्यक्ति अर्पित करना चाहता हो।

19 לְרִצְוֹנָם תְּמִים זָכָר בְּבִקְרָר בְּכֶשֶׁבִים וּבְעֵזִים:
 तुम्हारी-प्रसन्नता-के-लिए निर्दोष नर गोवंश-में भेड़ों-में और-बकरियों-में
 H7522 H8549 H2145 H1241 H3775 H5795

ये ऐसी भेंटें हैं जिन्हें लोग इसलिए लाते हैं कि वे यहोवा भेंट चढ़ाना चाहते हैं। तुम्हें कोई ऐसी भेंट नहीं स्वीकार करनी चाहिए जिसमें कोई दोष हो। मैं उस भेंट से प्रसन्न नहीं होऊँगा! यदि भेंट एक साँड़ है, या एक भेड़ है, या एक बकरा है तो वह नर होना चाहिए और इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए।

20 כָּל אֲשֶׁר- בּוֹ מוֹם לֹא תִקְרִיבוּ כִי- לֹא תִרְצֹן יְהוָה לָכֶם:
 कोई जिस-में- उसमें दोष नहीं चढ़ाओ क्योंकि- नहीं प्रसन्नता-के-लिए होगा तुमको
 H3605 H3808 H7126 H3808 H1961 H7522

ये ऐसी भेंटें हैं जिन्हें लोग इसलिए लाते हैं कि वे यहोवा भेंट चढ़ाना चाहते हैं। तुम्हें कोई ऐसी भेंट नहीं स्वीकार करनी चाहिए जिसमें कोई दोष हो। मैं उस भेंट से प्रसन्न नहीं होऊँगा! यदि भेंट एक साँड़ है, या एक भेड़ है, या एक बकरा है तो वह नर होना चाहिए और इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए।

21 וְאִישׁ כִּי- יִקְרִיב זָבַח- שְׂלָמוֹם לַיהוָה יָא-
 और-पुरुष यदि- चढ़ाए बलि- मेलबलि यहीवा-के-लिए- अद्भुत-पूरा-करने-के-लिए- या
 H0376 H7126 H2077 H8002 H3068 H6381 H5088

וְהָיָה- לְנִדְבָה לְנִדְבָה בְּבִקְרָר יָא- בְּצֹאן תְּמִים יְהוָה לֹא יְהוּ-
 हो- कोई-स्वेच्छाबलि-के-लिए गोवंश-में या या भेड़ों-में निर्दोष हो ही- कोई- प्रसन्नता-के-लिए- दोष नहीं हो-
 H1961 H5071 H6629 H8549 H1961 H7522 H3605 H3808 H1961

בּוֹ:
 उसमें

“कोई व्यक्ति यहोवा को मलेबलि चढ़ा सकता है। वह मेलबलि उस व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी वचन के लिए भेंट के रूप में हो सकती है या यह कोई स्वतः प्रेरित भेंट हो सकती है जैसे वह व्यक्ति यहोवा को चढ़ाना चाहता है। यह बैल या मेढ़ा हो सकता है। किन्तु वह स्वस्थ तथा दोष रहित होना चाहिए।

22 עֹרֹתָ אֹ שָׁבוֹר אֹ- חֲרוּץ אֹ- יְבֹלֶת אֹ- נָרֵב אֹ- יִלְפָת לֹא-
 अंधा या टूटा या- कटा-हुआ या- मससेवाला या- या खुजली या दाद नहीं-
 H7665 H2782 H1618 H2990 H3217 H3808

תִּקְרִיבוּ אֵלָה תַּהְנוּ לֹא- וְאֵשָׁה לַיהוָה יְהוּ-
 चढ़ाओ ये देवी पर- उनमें-से दो नहीं- और-अग्निबलि यहीवा-के-लिए-
 H7126 H0428 H3068 H5414 H1992 H3808 H0801 H3068

तुम्हें यहोवा को ऐसा कोई जानवर नहीं भेंट करना चाहिए जो अन्धा हो या जिसकी हड्डियाँ टूटी हों, या जो लंगड़ा हो, या जिसका कोई घाव रिस रहा हो या बुरे चर्म रोग वाला हो। तुम्हें यहोवा की वेदी की आग पर उस बिमार जानवर की भेंट नहीं चढ़ानी चाहिए।

לֹא	וּלְגַדָּר	אֵתוֹ	תַּעֲשֶׂה	נְדָבָה	וּקְלוֹט	שָׂרוּעַ	וְשָׂה	וְשׂוֹר	23
नहीं	और-मन्नत-के-लिए	उसे	करो	स्वेच्छाबलि	और-छोटा	अंगों-में-अधिकता	और-भेड़	और-बैल	
H3808	H5088	H0853		H5071	H7038	H8311	H7716	H7794	

וְרָצָה:
स्वीकृत-होगा
[H7521](#)

“कभी कभी किसी मवेशी या मेमने के पैर अत्याधिक लम्बे हो सकते हैं या ऐसे पैर हो सकते हैं जिनका विकास ठीक से न हुआ हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसे जानवर को यहोवा को विशेष भेंट के रूप में चढ़ाना चाहता है तो वह स्वीकार किया जाएगा। किन्तु इसे किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए वचन के लिए किये जाने वाले भुगतान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

וּבְאֲרָצְכֶם	לְיְהוָה	תִּקְרִיבוּ	לֹא	וּכְרוֹת	וְנִתּוּק	וּכְתוֹת	וּמְעוֹן	24
और-तुम्हारी-भूमि-में	यहोवा-के-लिए	चढ़ाओ	नहीं	और-काटा-हुआ	और-फटा-हुआ	और-कुटा	और-कुचला	
H0776	H3068	H7126	H3808	H3772	H5423	H3807	H4600	

וְלֹא תַעֲשֶׂוּ:
करो
नहीं
[H3808](#)

“यदि जानवर के अण्ड कोष जख्मी, कुचले हुए या फाड़े हुए हों तो तुम्हें उस जानवर की भेंट यहोवा को नहीं चढ़ानी चाहिए।

כִּי	אֵלָה	מִכֹּל-	אֱלֹהֵיכֶם	לָחֶם	אֶת-	תִּקְרִיבוּ	לֹא	נֹכַר	בֶּן-	וּמַיִד	25
क्योंकि	इन	सब-से-	तुम्हारे-परमेश्वर-की	रोटी	को-	चढ़ाओ	नहीं	परदेशी-के	पुत्र-	और-हाथ-से	
	H0428	H3605	H0430	H3899	H0853	H7126	H3808	H5236		H3027	

פ — לָכֶם:
— तुमको
וְרָצָו:
स्वीकृत-होंगे
לֹא
नहीं
בָּם
उनमें
מוֹם
दोष
בָּהֶם
उनमें
מִשְׁחָתָם
उनकी-बिगाड़ता
[H7521](#)
[H3808](#)

“तुम्हें विदेशियों से बलि के लिए ऐसे जडानवरों को नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जानवर किसी प्रकार चोट खाए हुए हैं। उनमें कुच दोष है। ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे।”

וַיְדַבֵּר	יְהוָה	אֶל-	מֹשֶׁה	לְאַמֵּר:	26
और-बोला	यहोवा	से-	मूसा	कहते-हुए	
H1696	H3068	H0413	H4872	H0559	

यहोवा ने मूसा से कहा,

שׂוֹר	אוֹ-	כֶּשֶׁב	אוֹ-	עֹז	כִּי	וּלְדָר	וְהָיָה	שְׁבַעַת	יָמִים	תַּחַת	אִמּוֹ	27
बैल	या-	भेड़	या-	बकरी	जब	जन्मे	और-हो	सात	दिन	नीचे	अपनी-मां	
H7794		H3775		H5795	H3205	H1961	H7651	H3117	H8478	H0517		

וּמִיּוֹם
और-से-दिन
הַשְּׁמִינִי
आठवें
וְהוֹלֵאָהּ
और-आगे
וְרָצָה:
स्वीकृत-होगा
לְקַרְבָּן
चढ़ावे-के-लिए
אֲשֶׁה
अग्निबलि
לְיְהוָה:
यहोवा-के-लिए
[H3117](#)
[H8066](#)
[H1973](#)
[H7521](#)
[H0801](#)
[H3068](#)

“जब को ई बछड़ा या भेड़ या बकरी पैदा हो तो अपनी माँ के साथ उसे सात दिन रहने देना चाहिए। तब आठवें दिन और उसके बाद यह जानवर यहोवा को आग द्वारा दी जाने वाली बलि के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

וְשׂוֹר	אוֹ-	שָׂה	אֵתוֹ	וְאֶת-	בְּנֹו	לֹא	תִשְׁחָטוּ	בַּיּוֹם	אֶחָד:	28
और-बैल	या-	भेड़	उसे	और-को-	उसके-बच्चे	नहीं	मारो	दिन-में	एक	
H7794		H7716	H0853	H0853	H0853	H3808	H3117	H3117	H0259	

किन्तु तुम्हें उसी दिन उस जानवर और उसकी माँ को नहीं मारना चाहिए। यही नियम गाय और भेड़ों के लिए है।

וְכִי-
और-जब-
תִּזְבְּחוּ
चढ़ाओ
זָבַח-
बलि-
תוֹרָה
धन्यवाद
לְיְהוָה
यहोवा-के-लिए
לְרָצְנְכֶם
तुम्हारी-प्रसन्नता-के-लिए
תִּזְבְּחוּ:
चढ़ाओ
[H2076](#)
[H7522](#)
[H3068](#)
[H8426](#)
[H2077](#)
[H2076](#)

“यदि तुम्हें यहोवा को कोई विशेष कृतज्ञता बलि चढ़ानी हो तो तुम उस भेंट को चढ़ाने में स्वतन्त्र हो। किन्तु यह इस प्रकार करो कि वह परमेश्वर को प्रसन्न करे।

